

Pledged to E.E RWD works Division
Dambha Duplicate Copy

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice



Rani
02/12/23

JAI SHANKAR KUMAR		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	78960300005281
MOH.MAHMADDA PO.PS.PUSHA DIST. SAMASTIPUR 844010 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1605230456
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	BO0V04302
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	78960200000336
		शाखा का नाम/Branch Name	MUZZAFARPUR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	AAFFJ8194B	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	Y		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1000000	16-05-2023	7.25	0 Months 399 Days	18-06-2024	1081371

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज 1. यदि अल्पतः अनुदित न हो तो 1 वर्ष के अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दिए लाने पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 2. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दिए लाने पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक वर्ष 15 जी 15 एच 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सौत पर कर कटौती की जाएगी 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज 1. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1% बंध का प्रचलन है, अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा 2. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1.5% बंध का प्रचलन है, अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू ब्याज दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा, रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए 7. गैर प्रतिबंधित जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature